

## प्रेस नोट दिनांक-17.10.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी गनीवा श्री राधाकृष्ण तिवारी तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त गुड्डू शुक्ला पुत्र रामभवन शुक्ला निवासी भटरी थाना राजापुर चित्रकूट को 89 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

### बरामदगी:-

89 क्वार्टर देशी शराब

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. चौकी प्रभारी गनीवा श्री राधाकृष्ण तिवारी
2. आरक्षी अशोक
3. आरक्षी वृन्दावन
4. आरक्षी शुभम

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ श्री गुलाब त्रिपाठी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री मेवालाल तथा उनकी टीम द्वारा एसटी0न0 34/2010 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट के वारण्टी अभियुक्त वेदप्रकाश उर्फ वेदवा पुत्र रामदास केवट निवासी भिटारिया पुरवा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्य थाना मऊ
2. आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार

(3). आज दिनांक-17.10.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में बारावफात एवं आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी श्री राजीव कुमार सिंह की उपस्थिति में कोतवाली कर्वी में थाना क्षेत्र के सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की गोष्ठी आयोजित की गयी। गोष्ठी में उपस्थित क्षेत्राधिकारी नगर महोदय ने सम्भ्रान्त व्यक्तियों से बारावफात त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीक से आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गयी।

इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा श्री अजीत कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में थाना रैपुरा में थाना क्षेत्र के सम्भ्रान्त व्यक्तियों एवं ग्राम प्रधानों के साथ पीस कमेटी की गोष्ठी आयोजित की गयी।

पीस कमेटी की गोष्ठी में थाना क्षेत्र के सम्भ्रान्त व्यक्ति एवं ग्राम प्रधान मौजूद रहे।

(4). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान “मिशन शक्ति फेज-3” के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान “मिशन शक्ति फेज-3” के तहत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 17.10.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा बरगढ़ मोड़ व सुचेता कॉलोनी में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा कस्बा रैपुरा में, एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में, एंटी रोमियो स्क्वायड कोतवाली कर्वी ने बस स्टैंड, काली देवी मंदिर, उतारखाना, लक्ष्मणपुरी, पुरानी बाजार आदि स्थानों में जाकर भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी

नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया। एण्टी रोमियो टीम की महिला आरक्षियों द्वारा बालिकाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी गयी। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

भ्रमण के दौरान महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानो में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओ की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हैल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हैल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवैसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया ।